

प्रेस विज्ञप्ति

19 जून 2021

हिन्दु युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजिनियर पी. के. मल्ल के नेतृत्व में ऑटो ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी एव हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा "पीनम सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल उपलिफ्टमेंट" के बैनर तले रक्त दान शिविर का आयोजन गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक में किया गया।

रक्तदान शिविर का उद्देश्य है रक्तदान द्वारा मरीजों के प्राणों की रक्षा करते हुए समाज का कल्याण करना।

इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने बताया की नर सेवा नारायण सेवा है, आपके किये गए रक्तदान से मरीजों को जीवनदान मिलता है। डॉ अग्रवाल ने आगे बताया की नियमित 90 दिन के अंतराल पर रक्तदान करने से शरीर में रक्त संचारण सुचारु रूप से होता है जिसके कारण आर्टीज में रुकावट और रक्त का जमाव नहीं होता, एक बार रक्तदान से लगभग 650 कैलोरी काम होता जो बजन नियंत्रित रखने में मदद करता है, रक्त दान से लिवर स्वस्थ रहता है और कैंसर इत्यादि अनेक बीमारियों से बचाव होता है।

इंजीनियर पी. के. मल्ल ने कहा की शरीर में जो रक्त है उसकी एक उम्र है उसके बाद वह नस्ट हो जाता है, वही रक्त शरीर से दान करने पर ब्लड बैंक द्वारा रक्त का परिक्षण कर उचित तापमान पर रख रखाव कर उस रक्त की उम्र बढ़ जाती है और उस रक्त से गंभीर मरीजों की प्राणों की रक्षा होती है। ब्लड बैंक द्वारा सभी रक्तदाताओं को मास्क उपलब्ध कराया गया।

आज इस रक्तदान शिविर में इंजीनियर पी. के. मल्ल, जी. के. द्विवेदी, स्वामीनाथ खरवार, सुनील सिंह, हरेंद्र कुमार, आनन्द शर्मा, उपेन्द्र चौरसिया, मनोज गुप्ता, राम गोविन्द, राधेश्याम इत्यादि समेत लगभग 20 स्वरक्तदाताओं ने रक्तदान कर समाज सेवा में अपनी अहम् भूमिका का निर्वाहन किया ये सभी रक्तदाता आदरणीय हैं।

सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, की चैन, कॉफी मग आदि दिया गया। वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए

कार्यक्रम मे सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजेशन तथा मास्क इत्यादि के साथ रक्तदाताओं का चिकित्सिय परिक्षण हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेसर, पल्स, ग्रुप इत्यादि की जाँच की गयी इस शिविर को सफल बनाने में तकनीशियन श्री अमित मिश्रा श्री राजीव तिवारी श्री गिरीश पाठक इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही